TDSL/CS/BSE/NP/02-2022-23

August 14, 2022

To,

Corporate Relationship Department,

Bombay Stock Exchange Limited PhirozeJeejeebhoy Towers Dalal Street,

Mumbai- 400001

Scrip Code- 540955, ISIN: INE773Y01014 (TDSL)

Dear Sir,

Sub: Submission of copies of newspaper advertisement for Un-Audited Financial Results

(Standalone) for the quarter ended June 30, 2022

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing a copy of newspaper advertisement of Un-Audited

Financial Results (Standalone) for the quarter ended on June 30, 2022, published in the Newspaper of

Financial Express, New Delhi edition English dated 14/08/2022 and Jansatta (Hindi), Lucknow edition

dated 14/08/2022. The same has been made available on company's website www.tastydairy.com.

Kindly take note of the same on record.

Yours faithfully,

for TASTY DAIRY SPECIALITIES LIMITED

Nishi

**Company Secretary & Compliance Officer** 

**Enclosure: As stated above** 

**FE SUNDAY** 

**EMD** 

Gross

36

Tasty@airy

Total Income from Operations

Equity Share Capital

of the previous year

Basic

Diluted

Diluted

Basic

Notes:

Place: Kanpur

Dated: 13.08.2022

Diluted

operations

and not subject to audit.

Particulars

Net Profit/Loss for the period (before tax, Exceptional

Net Profit/(Loss) for the period before tax (after

Net Profit/(Loss) for the period after tax (after

Total Comprehensive Income for the period

and Other Comprehensive Income (after tax)]

(Comprising Profit/Loss for the period (after tax)

Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2/- each)

Reserve (excluding Revaluation Reserve) as show

in the Audited balance sheet of the previous year)

Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 2/- each) (for

continuing and discontinued operations)

The Company operates in only one segment.

a. Basic

b. Diluted

August, 2022

Place: New Delhi

Earning Per Share:

Basic and Diluted

NO.

Thane

August 13, 2022

financiale

Date: 13.08.2022

Note:

Exceptional and/or Extraordinary items)

Exceptional and/or Extraordinary items)

Total Income from Operations (Net)

and /or Extraordinary Items)

Sr. No

Phone: +91-291-2765400 to 09 | CIN: L25192RJ2000PLC016480 E-mail: info@ombhansali.com | Website: www.somiinvestor.com STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER AND YEAR ENDED JUNE 30<sup>TH</sup>, 2022

1	(RS. III LAKIS)									
S	I Doubleuleus	Quarter ended June 30, 2022			Year ended March 31,2022					
ш		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited					
T	. Total Income from Operations	1339.48	1339.48	528.78	5723.39					
L	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	49.33	49.33	24.50	257.23					
L	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	49.33	49.33	24.50	257.23					
L	. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	36.91	36.91	16.40	171.58					
	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]		36.91	16.40	171.58					
	Equity Share Capital	1177.97	1177.97	1177.97	1177.97					
	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	4699.51	4699.51	4527.93	4527.93					
	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -  1. Basic: 2. Diluted:	0.31 0.31	0.31 0.31	0.14 0.14	1.46 1.46					
	<b>Note:</b> The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations,2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results is available on									

the Stock Exchanges websites (www.bseindia.com, www.nseindia.com) and Company's website i.e. www.somiinvestor.com. # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

OM PRAKASH BHANSAL Date: 12/08/2022 (Managing Director) Place: Jodhpur

Particuclars

Net Profit /(Loss) for the period before tax( After Exceptional items)

Total Comprehennsiveincome for the period comprisingProfit/(Loss) for the

Reserves (excluding Revaluation Reserve) and shown in the balance sheet

Net Profit / (Loss) for the period (After tax and exceptional items)

Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, exceptional item)

period (after tax) and other comprensive income (after tax)

Earning per share (Of Rs. 10/-) each (for continuing operations)

Earning per share (Of Rs.10/-) each (for discontinuing operations)

Earning per share (Of Rs.10/-) each (for continiuing and discontinuing

**BITS LIMITED** 

(CIN: - L72200DL1992PLC241971)

Regd. Off.- 711, 7th Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi - 110001

Email: bitsltd@gmail.com, website: http://www.bits.net.in Tel. No. 011-43656567

EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND THREE MONTHS ENDED 30TH JUNE, 2022

(Pursuant to Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015)

Quarter

Ended 30th

June, 2022

(Un-Audited)

19.80

3.14

3.14

2.22

2.33

2,237.5

0.0021

0.0021

The above Un- Audited Financial Results for the Quarter and Three months Ended as on 30th June, 2022

have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in Meeting held on 13th

The figures for the quarter ended 31st March, 2022 are the balancing figures between audited figures in

respect of the full financial year 2021-22 and the published year to date figures up to 31st December, 2021

The previous Year Figures have been regrouped, reclassified and recasted wherever necessary.

Statutory Auditors of the Company have carried out Limited Review of the aforesaid results.

TASTY DAIRY SPECIALITIES LIMITED

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022

The above standalone financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their

The figure for the quarters ended March 31,2022 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial

year and published unaudited year to date figures upto the third quarter of the respective financial year, which were only reviewed

(Amount Rs. In Lacs)

Quarter

Ended 30th

June. 2021

(Un-Audited

17.38

2.04

2.04

2.04

2.10

2,237.5

0.0019

0.0019

Quarter

Ended 31st

March, 2022

(Un-Audited)

20.53

2.97

2.97

5.34

5.28

2.237.5

0.0047

0.0047

By the order of Board of Directors

OMPRAKASH RAMASHANKAR PATHAK

respective meetings held on August 13, 2022 and statutory auditors have carried out a review of these financial results.

Regd. Office: D-3, UPSIDC, Industrial Area, Jainpur, Kanpur Dehat,

Uttar Pradesh, India, Pincode-209311

CIN: L15202UP1992PLC014593, Phone No.: 0512-4003999,

Fax No.: 0512-2234244 Email: info@tastydairy.com, Website: www.tastydairy.com

2.657.48

-295.12

-295.12

-214.24

-213.84

2.043.00

-1.05

-1.05

-1.05

-1.05

**Ouarter Ended** 

30-Jun-22 31-Mar-22 30-Jun-21 31-Mar-22

(Unaudited) (Refer Note 3) (Unaudited) (Audited)

4.382.67

15.07

15.07

11.84

11.41

0.06

0.06

0.06

0.06

For Tasty Dairy Specialities Ltd.

Chairman & Whole Time Director

DR. M. INDUSCORP LIMITED

Regd. Office: 18B/1, Ground Floor, Dev Nagar, D.B. Gupta Road,

Karol Bagh, New Delhi-110005, Tel.: +91-11-28716806 CIN: L01119DL1986PLC023698

Website: www.drminduscorp.com; Email:drmsoy@gmail.com

Extract of the Standalone Unaudited Financial Results

for the Quarter Ended 30th June 2022

Unaudited

17.41

(0.69)

(0.69)

(0.69)

(0.69)

\*763.02

0.00

0.00

0.00

The above is an extract of the detailed format of the Statement of Unaudited Financial

Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed Financial

Results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the

Board of Directors of the Company at their respective meeting held on 13/08/2022. The

full format of the Statement of Unaudited Financial Results are available on the

Company's website (www.drminduscorp.com) and on the website of Stock Exchange

TheLimited Review, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed and the related

Report does not have any impact on the above 'Results and Notes' for the Quarter

The figures of the previous period/year has been regrouped/recast wherever considered

The Share Capital includes amount of Rs. 7 Lacs against shares forfeited.

i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in)

ended, 30:06:2022 which needs to be explained

necessary, to conform to the current year classifications.

**Particulars** 

Total income from operations (Net)

Net Profit/(Loss) for the period

Net Profit/(Loss) for the period

before tax (after Exceptional

Net Profit/(Loss) for the period

Total Comprehensive Income for

the period [Comprising Profit/(Loss)

for the period (after tax) and Other

Comprehensive Income (after tax))

Reserves (excluding Revaluation

Reserve) as shown in the Audited

Balance Sheet of the previous year

and/or Extraordinary items)

after tax (after Exceptional

and/or Extraordinary items)

Equity Share Capital

Earnings per share:

Basic

Dilluted

Place: New Delhi

Date: 13/08/2022

Extraordinary items)

(before Tax, Exceptional and/or

2,043.00

2,623.25

-3.689.22

-3,689.22

-2.606.82

-2,606.37

2,043.00

-12.76

-12.76

-12.76

-12.76

## "IMPORTANT"

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian acting on an advertisement in

# Whilst care is taken prior to

any manner whatsoever.

# 2016 and regulation thereunder, that the properties stated in Table below, will be sold by E-Auction through the service provider M/s e-procurement Technologies Limited

(Rs. in Lacs)

Year Ended

16,243,43

-4.060.10

-4,060.10

-2.896.28

-2,895.91

2,043.00

923.22

-14.17

-14.17

-14.17

-14.17

(Atul Mehra)

DIN: 00811607

Quarter ended

30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021

Audited

20.71

(2.32)

(2.32)

(2.32)

(2.32)

\*763.02

0.00

0.00

0.00

Unaudited

7.56

(2.34)

(2.34)

(2.34)

(2.34)

\*763.02

0.00

0.00

By the Order of the Board

(PREM PRAKASH)

DIN: 00289179

Managing Director

(Rs. in Lakhs)

For Year

Ended

31.03.2022

Audited

65.15

(10.23)

(10.23)

(10.23)

(10.23)

\*763.02

(542.28)

0.00

Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise

(Auction Tiger) - via website http://www.auctiontiger.in Date and Time of Auction Tuesday, 30.08.2022 between 01:00 P.M. to 02:00 P.M. Last Date for Submission 26.08.2022 before 05:00 P.M On 24.08.2022 between 11.00 A.M. to 04:00 P.M. Inspection Date & Time The person to be contacted for inspection is Mr Rakesh Bhatia, Contact No. 9310278000, 9810378000 Lot Reserve Price EMD (Rs.) **Particulars** No. (in Lacs) (in Lacs) Property, factory building No. 58 & 65 Sector Village Shimla Bahadur, Tehsil Kicha Udham Singh Nagar (Rudrapur) IIDC, IIE SIDCUL, Pant Nagar (Uttarakhand), Area 1937 Sq.meter The EMD (Refundable) shall be payable by interested bidders through NEFT/ RTGS on or

before- 26.08.2022 in an account of "SPM AUTOMOTIVE COMPNENTS PVT LTD (IN LIQUIDATION)" having Account No. 5422000100139701 and IFSC Code KARB0000542. For detailed terms & conditions of E-auction sale, refer TENDER DOCUMENTS available on https://ncltauction.auctiontiger.net . For any query regarding E-Auction, contact Mr. Praveen kumar Theyar (M: 6351896834) on praveen.theyar@Auctiontiger.net or Liquidator on his e-mail at liq.spmautomotive@gmail.com Sd/- Rakesh Bhatia

Liquidator's Address: 123 New Lajpat Rai Market , Delhi-110006.

Contact: +91-9810378000, Email ID: liq.spmautomotive@gmail.com

E-AUCTION SALE NOTICE

Notice is hereby given to the public in general under the Insolvency and Bankruptcy Code

Liquidator for Spm Automotive Compnents Pvt Ltd (In Liquidation.) Place: New Delhi IP Reg. No.IBBI/IPA-001/IP-P00978/2017-18/11608 Date: 13.08.2022

यूनियन बैंक 🕠 Union Bank Branch: SCO-19&20, Sec - 31, Huda Market, Gurgaon, Haryana - 122001 \$= C

ANNEXURE - V [Rule - 8 (1) ] POSSESSION NOTICE (For immovable property ) Whereas The undersigned being the authorized officer of Union Bank of India, Sector 31 Gurgaon Branch Gurgaon under the Securitizations and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Security Interest (Second) Act, 2002 (Act No. 54 of 2002)and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 06-05-2022 calling upon the borrower M/s Gilbert Impex Pvt Ltd Address:- RZ-H-3/125C, First Floor, Mahavir Enclave, Palam, New Delhi-110045. Mr. Rodrick Gilbert RZ-H-3/125C, Bengali Colony, Mahavir Enclave, South

(Director) West Delhi, Delhi-110045. Mrs. Neetu Gilbert RZ-H-3/125C, Bengali Colony, Mahavir Enclave, South West Delhi, Delhi-110045. (Director)

to repay the amount mentioned in the notice being Rs.1,92,76,981.85 (Rupees One Crore Ninety Two Lakh Seventy Six Thousand Nine Hundred Eighty One & Eighty Five Paisa only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to

the borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of owers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this 11th day of August 2022. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be

Branch for an amount Rs. 1,92,76,981.85 (Rupees One Crore Ninety Two Lakh Seventy Six Thousand Nine Hundred Eighty One & Eighty Five Paisa only) and interest thereon. The borrowers' attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to the borrower to redeem the secured assets.

subject to the charge of the Union Bank Of India Sector 31 Gurgaon

Description of Secured Assets:

All that part of the property consisting of Residential Building Belonging to Mr. Rodrick Gilbert S/o Mr. George Gillbert (Owner of the property) situated at H.No-3/117(Must kil No.23, Killa No 2 & 3), Bangali Colony, Mahavir Enclave, Delhi-110045. Admeasuring 266.66 Sq. vard (plot size) Boundaries of site: North: H.No-H3/118, East: Service Lane Behind10'-0" wide, West: Road 15'-0" wide, South: Hno-H3/116

Authorized Officer, Union Bank of India Date: 11-08-2022 Place: Gurugram

SPM AUTOMOTIVE COMPNENTS PVT LTD (IN LIQUIDATION) (T) IDBI BANK

17

Friends Colony, New Delhi -110065] on 17.08.2022.

Name of the

IDBI BANK LIMITED Regional office: - 51/3. Desh Bandhu Gupta Road.

Karol Bagh (opposite Khalsa College), New Delhi, Pin- 110005 PUBLIC NOTICE FOR AUCTION OF GOLD ORANAMIENTS

Offers are invited for the public auction of the gold ornaments, pledged in favor of the Ban for the purpose of recovering the dues owed by the Borrower(s) to the Bank, as detailed below. The auction will be conducted at IDBI BANK LTD., New Friends Colony Branch at 12:00 P.M onwards in the Bank's premises at D-823, CGH Building, Main Road, New

SI. of gold price Account No. **Borrower &** weight in in Rs. in Rs. ornaments Grams. (Tentative) (Tentative) No **Address** pledged Rs.7358 Rs.147154 Bhulli Khan. ecklace 2 (18ct) 33.00 00001946 G 45 First Floor Tops 6 (18ct) 20.10 Fazal Enclave 1 11.50 Ring 3 (18 ct) okhla Near 11.38 Chain 1 (18 ct) Charminar Masjid Delhi 110005 Jay Balaji 14.50 Rs.2549 Rs.50,978 Necklace 1 2. 00001830 **Enterprises** Broken (19 ct) Ring 1 (18 ct) 2.89

The auction shall be subject to the terms and conditions of the sale stipulated by the Bank, a copy of which shall be displayed in the notice board of New Friends Colony Branch from 11.8.2022 to 16.8.2022 and interested parties may refer the same. A bidder participating in the auction shall be deemed to have full knowledge of the aforesaid terms and conditions of sale. Last date of submission of the Bid is 16.8.2022.

Place: New Delhi Date: 13.08.2022 **Authorized Officer** 

SHRI GANG INDUSTRIES AND ALLIED PRODUCTS LIMITED (Formerly Suraj Vanaspati Limited)

Regd. Office: A-26 UPSIDC Industrial Area, Sikandrabad, Bulandshahar, Uttar Pradesh-203205

Works office: B-2/6 & 2/7, UPSIDC Industrial Area, Sandila Phase IV, Hardoi, Uttar Pradesh CIN: L01112UP1989PLC011004, Website: www.shrigangindustries.com

Email ID: secretarial@shrigangindustries.com Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022

(Rs. in Lacs)

Quarter

Year

Quarter ended ended ended Particulars No 30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021 (Unaudited) (Audited) (Unaudited) 2181.16 1762.31 8113.77 Total income from operations (net) Profit / (Loss) from ordinary activities (before Tax, Exceptional and/or 155.01 65.67 558.79 Extraordinary items) Profit / (Loss) before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 155.01 65.67 560.67 Net Profit / (Loss) for the period after tax 155.01 65.67 560.67 Equity Share Capital (Face value of 793.00 Rs. 10/- each) 793.00 793.00 Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year) 0.00 0.00 Earnings per share (Face value of Rs. 10/- Each) Before and After Extraordinary items-1.95\* 0.83\* 7.07 Basic & Diluted (\*) Not Annualized

## The above results were reviewed by the Audit Committee in their meeting held

earlier on 13.08.2022 and later on approved by the Board of Directors in their meeting held on 13.08.2022. These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act. 2013

read with the relevant rules issued thereunder under The company has two business segments- Edible Oil Operations and Liquor

Operations and segmentwise results, assets and liabilities are accordingly given. During the current quarter as well as in the previous FY 2021-22, there was no

production in the vanaspati/refined oil unit of the company. Previous periods' figures have been regrouped/ re-arranged to make them comparable to current period.

By order of the Board

For Shri Gang Industries And Allied Products Limited Syed Azizur Rahman

Director

## Place: New Delhi Date: 13.08.2022 **BELLA CASA FASHION & RETAIL LIMITED**

(Rs in lacs except for EPS Year ended Quarter ended 31st March, 202 31st March, 2022 30th June, 2022 30th June.2021 **Particulars** (Un-audited) (Un-audited) (Un-audited) (Audited) 1. Total Income from Operations 4,428.08 5,220.74 2,457.14 20,638.35 188.81 313.95 15.00 1,536.87 313.95 15.00 1,536.87 188.81

Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 154.51 212.09 9.11 1,116.19 Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit 154.51 219.79 9.11 1,123.89 for the period (after tax) and other comprehensive Income (after tax)] 1,147.50 1.147.50 1.147.50 6. Equity Share Capital 1.147.50 7. Earning Per Share (of Rs. 10 /- each) (for continuing and discontinued operations 1. Basic 9.79 1.92 0.08 1.35 2. Diluted 1.92 9.79 Disclosures

Regd Office: E-102,103, EPIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur-302022

CIN: L17124RJ1996PLC011522, Tel: 0141-2771844, Email: info@bellacasa.in, website: www.bellacasa.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022

1. The above financial results are reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at its meeting held on 12th August, 2022.

2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended 30th June 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the these Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and on Company's website www.bellacasa.in.

For and on behalf of the Board of Directors of Bella Casa Fashion & Retail Limited [Harish Kumar Gupta] **Chairman & Whole Time Director** DIN: 01323944



**RAJSHREE POLYPACK LIMITED** Near New Passport Office, Wagle Estate, Thane (W) – 400 604. India

Corporate Office: 502, Lodha Supremus, Building No.1, 5th Floor, Road No. 22, Near New Passport Office, Wagle Estate, Thane (W) - 400 604. Tel: +91 22 2581 8200 CIN: L25209MH2011PLC223089 Website: www.rajshreepolypack.com

For BITS LIMITED

(Managing Director)

DIN: 01428320

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2022

			•		,			(₹ in Lakhs)
	Standalone				Consolidated			
Particulars	Quarter Ended Year E			Year Ended	Quarter Ended			Year Ended
	30-Jun-2022	31-Mar-2022	30-Jun-2021	31-Mar-2022	30-Jun-2022	31-Mar-2022	30-Jun-2021	31-Mar-2022
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations	6,857.06	5,166.14	4,908.73	19,965.36	6,857.06	5,166.14	4,908.73	19,965.36
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	637.79	297.34	350.63	1,285.03	637.79	297.34	350.63	1,285.03
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	637.79	297.34	350.63	1,285.03	637.10	297.34	350.63	1,285.03
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	476.46	220.41	260.43	957.14	475.77	220.41	260.43	957.14
Total Comprehensive Income for the period	475.90	221.76	259.78	955.10	475.21	221.76	259.78	955.10
Equity Share Capital	1,123.40	1,123.40	1,123.40	1,123.40	1,123.40	1,123.40	1,123.40	1,123.40
Other Equity (Excluding Revaluation Reserve)				10,451.48				10,451.48

2.31

8.50

4.24

Notes The above results for the quarter ended 30th June, 2022 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 13th August, 2022. The

1.97

4.24

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Consolidated Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com and on the Company's website www.

For and on behalf of the Board of Directors

Ramswaroop Radheshyam Thard **Chairman & Managing Director** DIN: 02835505

2.31

8.50



Date: 12th August, 2022

Place: Jaipur

TAMILNADU JAI BHARATH MILLS LIMITED REGD. OFF. 212, RAMASAMY NAGAR, ARUPPUKOTTAI - 626 159. CIN:- L17111TN1989PLC018267, www.tnjb.net.in. Extract of Statement of Financial Results (Unaudited)

for the Quarter Ended June 30, 2022

Rs. In Lakhs Quarter Ended Vear Ended Quarter Ended

		Analter Punco	Year Ended	Quarter Ended
S. No	Particulars	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	11.28	608.92	252,0774
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	(27.51)	(862.41)	(316.52)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional items)	350.23	(347.83)	(316.52)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional items)	350.23	(347.83)	(316.52)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other			NAME OF THE PARTY
- 1	Comprehensive Income (after tax)	350.23	(347.83)	(316.52)
6	Equity Share Capital	3978.47	3978.47	3978.47
7	Reserves	(8,081.66)	(8,431.89)	(8,400.58)
8	Earnings Per Share Basic and Diluted EPS Rs.	0.88	(0.87)	(0.80)
Note:				

1) The above is an extract of detailed format of Quarter and Year ended audited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing obligations and disclosure requirements ) Regulations 2015. The full format of the Quarter and Year ended Audited Financial Results are available on the Stock Exchange Websites. websites www.bseindia.com, and Company's websites www.tnjb.net.in

2) The financial statements of the company have been prepared in accordance with the Accounting Standards as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 as amended.

3) Power supply was disconnected in December 2021 and since then production has been stopped.

New Delhi

4) During the quarter ended Rs.5.53 Crs. Worth of machineries were sold. The Profit on sale of Machineries amounting to

Rs.3.74 Crores, being a non-recurring event has been considered as an exceptional item.

5) During the quarter ended Stores and Spares have been sold for Rs.25 lakhs and being a non-recurring event has been

considered as an exceptional item.

6) All monetary benefits viz., Wages, Leave with wages & Gratutity etc., were settelled to all eligible Employees. 7) The Financial statements for the Quarter ended has been prepared on Going Concern basis, despite sale of all machineries

and dis-connection of Electricity happened during the Quarter also.

For Tamilnadu Jai Bharath Mills Ltd., R. JAMUNA, Director

BY ORDER OF THE BOARD

Place: ARUPPUKOTTAI Date: 13th August, 2022

1.97

14 अगस्त, 2022

# जनसता

## लोगों से घरों पर तिरंगा फहराने का आग्रह करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी : ईरानी

उत्तर प्रदेश-

प्रयागराज, 13 अगस्त (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को दावा किया कि देश के इतिहास में यह पहली बार है कि जब किसी प्रधानमंत्री ने जनता से अपने घरों पर तिरंगा फहराने को कहा है।

स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में ईरानी ने कहा, 'इस तिरंगे को फहराने के लिए कई लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदर्भ देते हुए ईरानी ने कहा कि 'भारत के इतिहास में यह पहली बार है' जब किसी प्रधानमंत्री ने जनता से अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया है।

कांग्रेस का परोक्ष संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराना महज कुछ लोगों का अधिकार नहीं है। कोविड-19 महामारी का संदर्भ देते हुए ईरानी ने कहा कि देश को जब आजादी मिली थी, उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन पूरी दुनिया में पूर्णबंदी होगी और भारत के सपूत टीके का निर्माण करेंगे।

## कि हीरो हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

फोन: 011-49267000, टोल प्रते नावर: 1800 212 8800, ईमेल: customer.care@herohfl.com वेबसाईट: www.herohousingfinance.com | CIN: U65192DL2016PLC30148 म्पर्क का पताः बिल्डिंग नं. 07, 2रा तल, कम्युनिटी सेन्टर, बंसतलोक, बसंत विहार, नई दिल्ली-1100

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

(प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसा जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 अंतर्गत **हीरो हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड** के प्राधिकत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन नयमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित रूप में जारी कर ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 6 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

रृणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित कि नाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्ग उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। वेशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति व व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि के साथ उस पर ब्याज नीचे वर्णित तिथि से दंड ब्याज, चार्जेज, लागतों आदि के लिये हीरो हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के चार्ज वे

. प्रणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम

धारा 13 का उप-	भारा 13 का उप-धारा (४) के प्रावधाना के प्रांत आकृष्ट का जाता है।						
ऋण खाता सं.	देनदारों/सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों का नाम	मांग सूचना तिथि⁄मांग सूचना के अनुसार राशि	कब्जा की तिथि (रचनात्मक/भौतिक)				
HHFLUCHOU 19000001112	अमित ववाहल एवं नेहा ववाहल	14.07.2021 रु. 31,40,422.18/- दिनांक 14.07.2021 को	08.08.2022 (भौतिक)				

ारचना. वार्ड-बालकगंज. गली नं. 09. हैदरगंज जदीद. अमन विहार कॉलोनी नाम से विदित, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226017 (एरिया माप 600 वर्ग फीट अर्थात् 55.762 वर्ग मीटर), चौहद्दीः उत्तरः 15 फीट चौड़ा रोड, पूर्वः अन्य सम्परि क्षिणः अन्य मकान, पश्चिमः प्लॉट नं, 194

प्राधिकृत अधिका हीरो हाउसिंग फाइंनास लिमिटेड के लि

हाफिजपुर के गांव बड़ौदा सिहानी में नलकूप के कुएं में काम करने उतरे चार लोग गैस बनने से बेहोश हो गए। इनमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जिसकी सचना आग की तरह गांव में फैल गई सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ नलकूप पर पहुंच गई।

पुलिस ने बेहोश लोगों को नलकूप से बाहर निकलवाकर अस्पताल भिजवाया। जहा डाक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।

ग्रामीणों के अनुसार गांव बड़ौदा सिहानी के जंगल में आस मोहम्मद की ट्यूबवेल व खेत स्थित है। कुएं में कुछ खराबी होने के चलते 22 वर्षीय इरफान और उसके तीन संगे भाई आस मोहम्मद, सलमान और भूरे नलकूप में उतरे। काम करते हुए कुए में गैस बनी जिस कारण सभी बेंहोश हो गए। बेहोश होने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर आ गई। कड़ी मशक्कत के बाद चारों को बाहर निकाला गया। ग्रामीणों के अनुसार इरफान की नलकृप में ही मौत हो गई थी। मौत की सूचना मिलने पर परिवार वालों में कोहराम मच गया। परिजन का रो रोकर बरा हाल है।

KHANDELWAL EXTRACTIONS LIMITED

CIN: L24241UP1981PLC005282; Regd. Office: 51/47, Naya Ganj, Kanpur- 208 001

Months Ended

30.06.2022

7.81

7.81

ded 31.03.2022

0.90

42.78

42.78

29.71

**EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS** 

FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022

# जहरीली गैस से चार लोग बांदा नाव हादसा : यमुना बेहोश, एक की मौत हापुड़, 13 अगस्त (जनस्ता)। आठ और शव निकाले

फतेहपुर,13 अगस्त (जनसत्ता)।

बांदा में गुरुवार को हुए नाव हादसे के बाद शुक्रवार देर रात आठ लोगों के शव युमना नदी में उतराते मिले हैं। नरौली किशनपुर मझिगवां घाट पर आधा दर्जन शव मिलने की सूचना पर पुलिस प्रशासन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बांदा जिला के मर्का थाना क्षेत्र अंतर्गत नाव डूबने से 17 लोग लापता थे।

ग्रामीणों ने सुबह करीब छह बजे शवों को नदी में उतराते देखा। पुलिस प्रशासन को खबर देकर ग्रामीण शवों को निकालने में जुट गए। नाविक नदी में नाव लेकर गए और शवों को निकाला। सभी शव फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र में मिले हैं। थाना क्षेत्र के नरौली गांव निवासी मैंकुवापुर मजरे सरकंडी का शव मिला। घटना के दिन वह बांदा के बैराफ बहन के घर से राखी बंधवा कर नाव से लौट रहा था। जयचंद्र की पहचान उसके बड़े भाई रज्जन ने फोटो देखकर की है। अब तक चार शवों की पहचान हो चुकी है बाकी तीन शवों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।

एसडीआरएफ और पुलिस शवों को निकालने में लगी है। मौके पर डीएम श्रुति व एसपी राजेश कुमार सिंह पहुचे और जायजा लिया। एसडीएम मनीष कुमार ने बताया कि शवों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। टीमें खोजबीन में जुटी हैं। रक्षाबंधन पर भाइयों को राखी बांधने जा रहीं महिलाओं से भरी नाव

किनारे यमुना में जयचंद्र (16) पुत्र प्रेमचंद्र यमुना नदी की बीच धारा में पलट गई थी। इसमें 32 लोग थे जिनमें से 15 लोग तैरकर बाहर आ गए थे। तीन शव बरामद कर लिए गए थे। गुरुवार को दोपहर करीब तीन बजे मर्का थाना क्षेत्र के कस्बे से फतेहपुर के असोथर जा रही नाव यमना नदी के बीच धार में पहुंची तो पतवार टूट गई। इससे नाव डगमगाने लगी। इसी बीच कई यात्री नाव से कूद पड़े। नाव पलट कर नदी में डूब गई। शुक्रवार को पूरे दिन बांदा में यमुना नदी में नाव डूबने से लापता लोगों को खोजने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल छह टीमें लगी रहीं। इन टीमों के 60 जवान आठ मोटर बोट से पूरा दिन तलाशने के बाद भी किसी को नहीं ढूँढ पाए थे।

आतंकी संगठनों से

संपर्क रखने के आरोप में

नदीम को भेजा जेल

युपीएटीएस ने 25 वर्षीय युवक मोहम्मद

नदीम को आतंकी संगठनों से संपर्क रखने के

आरोप में जेल भेज दिया। उसके बड़े भाई तैमूर

को लंबी पूछताछ के बाद रिहा कर सहारनपूर

के सांसद फजर्लुरहमान कुरैशी की मौजूदगी में

उसके परिजनों की सुपुदर्गी में दे दिया। मोहम्मद

नदीम के आतंकी निकलने पर उसके पिता

नफीस और मां जरीना दोनों सदमे में हैं और

कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। दोनों ने आज

मीडिया से दूरी बनाए रखी। एटीएस के द्वारा

पूछताछ के बाद छोड़ा गया तैमूर भी मीडिया के

से नदीम पर काम हो रहा था और जब एटीएस

को उसके बारे में पुख्ता जानकारियां मिलीं, तो

उसे और उसके भाई तैमूर को 7 अगस्त की

रात करीब साढ़े बारह-एक बजे जिले के थाना

गंगोह की पुलिस चौकी एवं गांव कुंडा कलां से

पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। 25

वर्षीय मोहम्मद नदीम ने एटीएस की लंबी

पुछताछ में कई रहस्योद्घाटन किए और

पाकिस्तान के कुख्यात आतंकी संगठन जैस-

ए-मोहम्मद से अपने संबंधों को कबल किया

और कहा कि वे पाकिस्तान स्थित आतंकी

संगठनों के आकाओं के वर्चुअली सीधे संपर्क

में था। उसके मोबाइल की जांच में ऐसे पुख्ता सबत एटीएस को मिले हैं जिससे नदीम के आतंकी संगठन से रिश्ते पुख्ता हो गए। यह आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देता इससे पहले ही एटीएस द्वारा धर-दबोच लिया गया। एटीएस के निरीक्षक सुधीर उज्जवल ने बताया कि नदीम के खिलाफ थाना लखनऊ में आईपीसी की धारा 121ए और 123 और विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 13, 18 और 38 के तहत मकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। जेल भेजे गए नदीम के परिजनों ने आज बताया कि नदीम की मां जरीना की दो बुआ बसीरी पाकिस्तान के जिला खरखौदा और दूसरी बुआ पाकिस्तान के ही नवाब साहब पिंड में रहती है और नदीम के पिता नफीस की एक बुआ

एटीएस के सहारनपुर इकाई के निरीक्षक सुधीर उज्ज्वल ने बताया कि पिछले काफी दिनों

सामने नहीं आया।

सहारनपुर, 13 अगस्त (जनसत्ता)।

# पाकिस्तान का झंडा फहराने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

कुशीनगर , 13 अगस्त (भाषा)।

(Rs./ Lacs)

responding 3 Month

Ended 30.06.202

(8.66)

(8.66)

(8.66)

(1.02)

कुशीनगर जिले में एक व्यक्ति को उसके घर पर पाकिस्तान का झंडा फहराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

कुशीनगर के अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह ने शनिवार को घटना की पृष्टि करते हुए बताया, 'शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे जिले के तरियाँ सुजान थाना क्षेत्र के वेदुपर मुस्तक्विल गांव में एक घर पर झंडा फहराया गया।

इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो लोगों के खिलाफ

मामला दर्ज किया गया है।' उन्होंने कहा कि पलिस को इसकी सचना मिलते ही 'गैर-राष्ट्रीय ध्वज' को हटा दिया गया।

सिंह ने यह भी कहा कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान सलमान (21) के रूप में हुई है।

सलमान और झंडा बनाने में उसकी मदद करने वाली बुआ शहनाज (22) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा झंडा फहराने में मदद करने के मामले में भी

सलमान के चचेरे भाई इमरान के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।'

## चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड Chola 🌣

कॉर्पोरेट कार्यालय : प्रथम तल, डेयर हाउँस, नं. 2, एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नई-600 001. शाखा का पताः एससीओ नंबर 218-219, पहली मंजिल, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, सेक्टर 34-ए, चंडीगढ़ -160022 शाखा पताः एससीओ-105, सेक्टर-17, प्रथम तल, पेट्रोल पंप के पास, कोर्ट रोड, जगाधरी, यमुनानगर-135001

कब्जा सूचना नियम - 8(1) के तहत

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पर्नोर्नेर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत मैसर्स चोलामण्डलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे कॉलम (बी) में सूचित नाम वाले कर्जदारों से नीचे कॉलम (डी) में सूचित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने का कहते हुए कॉलम (सी) में निर्दिष्ट तिथियों पर मांग सचनाएं जारी की थीं।

कर्जदारों द्वारा राशि का पुनर्भगतान करने में असफल होने के कारण, एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नियमों के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) तथा उसके तहत निर्मित नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में यहाँ नीचे कॉलम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक सम्पत्तियों पर कॉलम (एफ) में वर्णित सम्बन्धित तिथियों पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों को तथा जनसामान्य को एतद्वारा नीचे कॉलम (ई) में वर्णित सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और ऐसा कोई संव्यवहार कॉलम (डी) में वर्णित राशि एवं ब्याज सहित अन्य प्रभारों के लिए मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रभार के अध्यधीन होगा। प्रतिभृतिकरण अधिनियम की धारा 13(8) के तहत कर्जदार बिक्री की अधिसुचना से पूर्व समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों सहित सम्पूर्ण बकायों का भुगतान करके प्रतिभृत आस्ति विमोचित कर सकते हैं।

क्र.सं.	खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जाकृत सम्पत्ति का विवरण	सांकेतिक कब्जे की तिथि
1 1	B ज्रुग खाता सं. X0HEYAM00000746502, X0HEYAM00000901084 कर्जदार तथा सह-कर्जदार : 1. अमिरन्दर सिंह चीमा 2. कमल प्रीत कौर (सभी निवासी) मकान नं. 498, वार्ड नं. 27, कैम्प, यमुना नगर-135002 3. अमिरन्दर रोड कैरियर (सभी व्यवसाय का पता) रादौर रोड, सामने एचवीपीएन जादियान, यमुना नगर-	7/06/2021	रु. 22,25,050.78/- तिथि 05-06-2021 तक तथा उस पर भावी ब्याज	E सम्पत्ति निगम सं. 498/27 माप 80 वर्ग गज पूर्व का म.नं. बी-8-378 या पुराना म.नं. 425-426 रिलीज विलेख सं. 2008 दिनांक 18.07.2008 के अनुसार पंजीकृत, रिफ्यूजी कैम्प, बैरक नं. 27, तहसील जगाधरी जिला यमुनानगर में स्थित।	8
2	ऋण खाता सं. : X0HEYAM00001336543 कर्जदार तथा सह-कर्जदार : 1. मंजीत राणा 2. रेखा रानी 3. विमला देवी (सभी निवासी) मकान नं. 9/1763, वार्ड नं. 20, कृष्णा नगर, यमुना नगर-135002	07/06/2021		मकान निगम यूनिट नं. बी-9/1763, माप 143.5 वर्ग गज, खसरा नं. 12/5/1 में शामिल, मौजा चांदपुर, अब कृष्णा नगर, निकट हरबंसपुरा, यमुना नगर, तहसील जगाधरी, जिला यमुना नगर में स्थित, नगर निगम यमुना नगर-जगाधरी की सीमा में, सीमाएँ : उत्तर : 24'6'-गली 20' चौड़ी, दक्षिण : 25'2 अन्य का मकान, पूर्व : 52' प्लॉट नं. 19 पर निर्मित मकान, पश्चिम : 52' प्लॉट नं. 20 पर निर्मित मकान	1/08/2022

तिथि : 14/08/2022 स्थान : यमुना नगर

अधिकृत प्राधिकारी मैसर्स चोलामण्डलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

### mprising Profit/(Loss) for the period (after 29.71 and other comprehensive income (after tax)] Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- per share) 85.01 85.01 Reserves (excluding Revaluation Reserve Basic & Diluted Earnings per share (of Rs.10/-120.61 each) (For continuing and discontinuing 0.92 operations) (Not Annualised) (in Rs.)

. Total income from operations . Net Profit/(Loss) for the period (before Tax,

Exceptional and/or Extraordinary items)

Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)

Total Comprehensive Income for the period

Notes: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website: www.bseindia.com and on the Company's website: www.khandelwalestractions.com

For and on behalf of the Board of Directors Dinesh Khandelwal Director (Finance) & CFO DIN: 00161831

TASTY DAIRY SPECIALITIES LIMITED

Regd. Office: D-3, UPSIDC, Industrial Area, Jainpur, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh, India, Pincode-209311

CIN: L15202UP1992PLC014593, Phone No.: 0512-4003999, Fax No.: 0512-2234244 Email: info@tastydairy.com, Website: www.tastydairy.com EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022

					(Rs. in Lacs)
Sr. No			Year Ended		
	Particuclars Particuclars	30-Jun-22	31-Mar-22	30-Jun-21	31-Mar-22
		(Unaudited)	(Refer Note 3)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	2,657.48	2,623.25	4,382.67	16,243.43
2	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, exceptional item)	-295.12	-3,689.22	15.07	-4,060.10
3	Net Profit /(Loss) for the period before tax( After Exceptional items)	-295.12	-3,689.22	15.07	-4,060.10
4	Net Profit / (Loss) for the period (After tax and exceptional items)	-214.24	-2,606.82	11.84	-2,896.28
5	Total Comprehennsiveincome for the period comprisingProfit/(Loss) for the period (after tax) and other comprensive income (after tax)	-213.84	-2,606.37	11.41	-2,895.91
6	Equity Share Capital	2,043.00	2,043.00	2,043.00	2,043.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) and shown in the balance sheet of the previous year				923.22
8	Earning per share (Of Rs.10/-) each (for continuing operations)				
	Basic	-1.05	-12.76	0.06	-14.17
	Diluted	-1.05	-12.76	0.06	-14.17
9	Earning per share (Of Rs.10/-) each (for discontinuing operations)				
	Basic	1	1	-	-
	Diluted	-	-	-	-
10	Earning per share (Of Rs.10/-) each (for continiuing and discontinuing operations				
	Basic	-1.05	-12.76	0.06	-14.17
	Diluted	-1.05	-12.76	0.06	-14.17

Place: Kanpur Dated: 13.08.2022

The above standalone financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on August 13, 2022 and statutory auditors have carried out a review of these financial results.

The fligure for the quarters ended March 31,2022 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and published unaudited year to date figures upto the third quarter of the respective financial year, which were only reviewed and not subject to audit.

For Tasty Dairy Specialities Ltd

(Atul Mehra) Chairman & Whole Time Director DIN: 00811607

-0.02

## VIKALP SECURITIES LIMITED

Regd. Office: 25/38, KARACHI KHANA, KANPUR, UTTAR PRADESH - 208001 CIN - L65993UP1986PLC007727 , Contact No: 0512-2372665 Email id: vikalpsecuritieslimited@gmail.com

Website: www.vikalpsecurities.com

EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 30th JUNE, **Particulars** Rs. In Lacs No Quarter Ended Year Ended 30.06.2022 30.06.2021 31.03.2022 31.03.2022 (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Audited) Total Income from Operations 0.00 0.00 0.00 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / o -0.19 -0.46 -1.51 -1.99 Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or -0.19 -0.46 -1.51 -1.99 Extraordinary items Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and and / or -0.46-1.51 -0.19-1.99 Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (Comprising -0.45 -0.38 -1.67 0.01 Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive ncome(after Tax)1 Equity share capital (Face Value of Rs.10/- each) 305.19 305.19 305.19 305.19 Reserves (Excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited 0.00 0.00 0.00 125.25 Balance sheet of the Previous year Basic and diluted EPS (Not Annulized) (Rs.) Basic -0.02 -0.05 -0.07

Note: The above is an extract of the detailed format of quarter ended unaudited Financial Results of 30th June, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly ended Financial Results of 30th June, 2022 are available on the website of Bombay Stock Exchange Limited www.bseindia.com and on the website of the Company www.vikalpsecurities.com.

-0.01

For Vikalp Securities Limited

-0.05

ArunKejriwal Managing Director DIN: 00687890

-0.07

## आरसी इंड्स्ट्रीज लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 7वां, के.एम बरवाला रोड, तलवंडी राना, हिसार–125001 (हरियाणा) फोन नंo.: 01662-276178, 98120-40111, फैक्स नंo: 01662-276145 CIN No. L29120HR1992PLC031681, ईमेल आईडी: arceeind@rediffmail.com

30.06.2022 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम (रू. लाखों में कथित को छोडकर)

		,					
विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2022	समाप्त तिमाही 31.03.2022	समाप्त तिमाही 30.06.2021	समाप्त वर्ष 31.03.2022			
	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)			
प्रचालनों से कुल आय में अन्य आय शामिल	708.12	1106.04	856.71	3425.35			
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/व असाधारण मदों से पूर्व)	(41.26)	83.88	30.42	63.84			
कर के पहले अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	(41.26)	83.88	30.42	63.84			
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	(41.26)	66.53	30.42	46.49			
अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाम/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल]	-	-	-	-			
इक्विटी शेयर कैपिटल	513.88	513.88	513.88	513.88			
पिछले वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट में दिखाए गए अनुसार रिजर्व (पुनर्मुल्यांकन रिजर्क्स को छोडकर)	-	-	-	44.92			
प्रति शेयर आय (प्रत्येक 10/- के) (चालू और बंद प्रचालन के लिए) ए) बेसिक बी) डायल्यूटिड	(0.80) (0.80)	1.29 1.29	0.59 0.59	0.9 0.9			
Carrenth.							

स्थानः हिसार

तिथिः 13.08.2022

सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अनुसार ऊपर दर्ज की गई त्रैमासिक / वार्षिक वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। त्रैमासिक / वार्षिक वित्तीय परिणामां का सम्पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।

13 अगस्त, 2022 को आयोजित बैठक में उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, उसी की सीमित समीक्षा कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है।

> कृते और निदेशक मंडल की ओर से आरसी इंड्स्ट्रीज लिमिटेड

हस्ता / (श्रुति गुप्ता) DIN - 01742368

## प्रेमिका ने की खुद्कुशी, जहर खाने से प्रेमी की हालत गंभीर

पाकिस्तान के जिला कुसूर गांव बरखी में रहती

हैं। नदीम अपने इन रिश्तेदारों से फोन द्वारा

बुलंदशहर, 13 अगस्त (जनसत्ता)।

संपर्क में रहता था।

जिले की स्याना कोतवाली इलाके में एक नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी के घर फांसी लगाकर कथित तौर पर खुदकुशी कर ली जबकि उसके नाबालिग प्रेमी ने भी जहर खा लिया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, स्याना कोतवाली इलाके के एक गांव की रहने वाली करीब 16 वर्षीय लड़की का पड़ोस में रहने वाले अपने हमउम्र लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों अलग-अलग स्कूलों में पढ़ते थे। उन्होंने बताया कि शुक्रवार देर रात लड़की अपने प्रेमी के घर पहुंच गई, जहां उसने फंदे लगा लिया जबकि उसके प्रेमी ने जहर खा लिया। शनिवार सुबह लड़की का शव प्रेमी के घर पर लटका हुआ मिला जबिक उसका प्रेमी बेहोशी की हालत में मिला। उसे इलाज के लिए हायर मेडिकल सेंटर भेजा गया है।

पुलिस के अनुसार, गांव के रहने वाले बसंत शर्मा ने बताया कि लड़की ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ती थी और आज सुबह ही पुलिस को मामले की जानकारी मिली। पुलिस अधीक्षक (नगर) सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि लड़की का शव लड़के के घर से बरामद हुआ है। दोनों की उम्र 16-17 साल के बीच की है। उन्होंने बताया कि लड़की का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की छानबीन की जा रही है।

## Date: 13th August, 2022 Place: Kanpui

Diluted